

**नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2014 से 3/2016
भाग—एक**

1 (i) प्रारम्भिक:—

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन करने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन(एल0ए0)—खण्ड—IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

नगर परिषद में अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/16 निम्नलिखित प्रधान व कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे:—

प्रधान:—

क्र०सं०	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्री ऋषभ कालिया	01.04.14 से 16.02.16 तक
2	श्रीमती बिमला महंत	17.02.2016 से 31.3.16

कार्यकारी अधिकारी:—

क्र०सं०	कार्यकारी अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री राज कृष्ण शर्मा	01.04.14 से 01.07.2014 तक
2	श्री मोहिन्द्र सिंह ठाकुर	05.07.14 से 04.08.2014 तक
3	श्री सुरेश जसवाल (S.D.O. (c)	05.08.14 से 04.11.2014 तक
4	श्री रघुवीर सिंह (Tehsildar)	05.11.14 से 08.11.2015 तक
5	श्री तेज सिंह ठाकुर (M.E.)	09.11.15 से 31.3.16

(ii) नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार:—

क्र०सं०	गम्भीर अनियमितता का सार	पैरा सं०	राशि ₹ लाखों में
1	दिनांक 31.3.2016 को अनुदानों की अनुपयुक्त राशि	6 (क)	232.01
2	दिनांक 31.3.2016 को गृहकर की वसूली योग्य राशि	7	30.39

3	दुकानों के किराये की दिनांक 31.3.2016 को वसूली योग्य राशि	8	23.00
4	मोबाईल टावरों की दिनांक 31.3.2016 को वसूली शेष राशि	9	1.97
5	दिनांक 31.3.16 को महिला छात्रावास बूथ इत्यादि का किराया वसूली हेतु शेष	10	24.13
6	दिनांक 31.3.2016 को अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष	11	38.92
7	दशहरा मेले की कुल प्राप्ति का 37% शेयर मेला समिति से वसूली न करना	13	297.84
8	चिकित्सा भत्ता (Fixed medical Allowence) बिना स्वीकृति व विकल्प के कर्मचारियों को देकर अनुचित भुगतान	14 (क)	0.57
9	घर-घर से कूड़ा कचरा उठाने में औपचारिकताओं को पूर्ण करने के कारण अनियमित व्यय	17	17.24

(iii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिशिष्ट "I-क" में दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद प्रशासन इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करना सुनिश्चित करें व कृत अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

नगर परिषद कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण, श्री राम लाल, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) द्वारा 17.8.2016 से 2.12.2016 व श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा 15.11.2016 से 2.12.2016 के दौरान कुल्लू में किया। अंकेक्षण में आय हेतु माह 1/15 व 11/2015 तथा व्यय के लिए माह 10/14 व 6/15 के लेखाओं का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया।

नगर परिषद कुल्लू के लेखाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी प्रकार

की अधूरी अथवा उपलब्ध न करवाई गई सूचना के लिये स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

नगर परिषद कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/2014 से 3/2016 के लेखाओं व घर-घर से कूड़ा कचरा उठाने की योजना के अवधि 1.8.14 से 31.3.15 के विशेष अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹86000/- किया गया। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू को सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या के0सी0-166 दिनांक 2.12.2016 द्वारा उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को प्रेषित करने का अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:—

(i) नगर परिषद कुल्लू के अवधि 4/2014 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति नगर परिषद प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट "ख" के अनुसार निम्न प्रकार से है:—

(क) मुख्य रोकड़ वही:—

वर्ष	गतशेष	प्राप्ति	कुल जमा	भुगतान	अन्तशेष
2014-15	35478732	189092753	224571485	188352051	36219434
2015-16	36219434	81301979	117521413	92172350	25349063

दिनांक 31.3.2016 को बैंक वार विवरण:—

क्र0सं0	कुल्लू स्थित बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	पी0एन0बी0	3378000100019219	315237.41
2	पी0एन0बी0	3378000105012804	26616.82
3	पी0एन0बी0	3378000100056520	44398.00
4	पी0एन0बी0	0274002100024255	12812.67
5	के0सी0सी0बी0	20006013425	2816517.00
6	के0सी0सी0बी0	1621	11926.00
7	ओ0बी0सी0	08002011000613	415003.00
8	यू0बी0आई0	938	62489.14
9	केनरा बैंक	2420101004481	16293.14
10	यूको बैंक	11470100004959	23000.00
11	यूको बैंक	11470110025420	35276.40
12	जे एंड के बैंक	3081	475064.03
13	पी0एन0बी0	0274000105168824	348556.00

14	आई0डी0बी0आई0	6019	6785131.00
15	एच0डी0एफ0सी0	22981	65124.64
16	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1051	772579.00
17	एक्सिस बैंक	916010014480994	272899.50
18	एक्सिस बैंक	916040015685702	2500000.00
19	हिमाचल ग्रामीण बैंक	654	583310.20
20	हिमाचल ग्रामीण बैंक	5007168528	5000000.00
21	हिमाचल ग्रामीण बैंक	5007168458	5000000.00
	योग		25582233.95

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

रोकड़ वही के अनुसार 31.3.2016 तक अन्त शेष	25349063.00
1 जमा (+) 31.3.16 तक भुगतान चैक रोकड़ बही में दर्ज परन्तु पास बुक में बाद में दर्ज	(+) 362034.00
2 घटायें (-) 31.3.16 तक आय जमा रोकड़ बही में परन्तु पास बुक में बाद में दर्ज	(-) 128959.00
3 अन्तर जिसका समाधान वाँछित हैं	(+) 95.95
विभिन्न बैंकों में दिनांक 31.3.2016 तक अन्तशेष	25582233.95

अन्तर की राशि का समाधान:-

(1) परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक जारी चैक रोकड़ वही से घटायें गये, परन्तु पास बुक में 31.3.2016 के बाद घटायें गये हैं।

क्र०सं०	बैंक का नाम	चैक संख्या	दिनांक	राशि (₹)
1	यूको बैंक	182486	30.6.15	2500
2	ओ0बी0सी0	165226	3.10.15	1500
3	यूको बैंक	207159	2.1.16	13554
4	यूको बैंक	000015	16.2.16	243
5	यूको बैंक	000035	3.3.16	2000
6	आई0डी0बी0आई0	25180	11.3.16	304439
7	आई0डी0बी0आई0	25181	11.3.16	15247
8	आई0डी0बी0आई0	37203	21.3.16	12551
9	पी0एन0बी0	आर0टी0जी0एस0	30.3.16	10000
		योग		<u>₹362034</u>

(2) संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार प्राप्त आय के चैकों को दिनांक 31.3.2016 का रोकड़ बही में जमा दर्शाया गया परन्तु यह चैक पास बुक में दिनांक 31.3.2016 के बाद जमा दर्शाए गए।

क्र०सं०	बैंक का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	यूको बैंक	31.3.16	7816

2	एक्सिस बैंक	10.3.16	4320
3	एक्सिस बैंक	31.3.16	6900
4	एक्सिस बैंक	31.3.16	11495
5	एक्सिस बैंक	31.3.16	17110
6	एक्सिस बैंक	31.3.16	3573
7	एक्सिस बैंक	31.3.16	1540
8	एक्सिस बैंक	31.3.16	2925
9	एक्सिस बैंक	31.3.16	4500
10	एक्सिस बैंक	31.3.16	4500
11	जे0 एंड के0 बैंक	31.3.16	34385
12	जे0 एंड के0 बैंक	31.3.16	750
13	के0सी0सी0बी0	31.3.16	29145

योग ₹128959

(3) मुख्य रोकड़ बही के अतिरिक्त निम्न रोकड़ बहियों में 31.3.16 को निम्न राशियाँ अन्तःशेष थी

(i) ठोस कचरा प्रबन्धन

31.3.16 को रोकड़ बही शेष ₹716337

खाता संख्या 7801 में ₹713217

खाता संख्या 6022 में ₹3120

31.3.16 को बैंकों में कुल जमा ₹716337

(ii) IDSMT

31.3.16 को रोकड़ बही का शेष ₹537589

खाता संख्या 6169 में जमा ₹537589

(iii) NORAD

31.3.16 को रोकड़ बही का शेष ₹6135

31.3.16 को बैंक खाता 6022 में जमा ₹6135

5 निवेश:-

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट "ख" (4) अनुसार अवधि 31.3.2016 को सावधि जमा योजना के अन्तर्गत ₹12500000 निवेश की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। उन्हें पुनः निवेशित किया गया है परन्तु अर्जित ब्याज की रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई थी। अतः परिपक्वता के समय सम्पूर्ण राशि की ब्याज सहित रोकड़ बही में प्रविष्टि करना सुनिश्चित की जाए।

क्र०सं०	बैंक का नाम	एफ०डी०आर० सं०	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	अवधि दर	परिपक्वता राशि
1	एक्सिस बैंक	916040015685702	15.2.16	2500000	45 दिन 5.5%	2516952
2	हिमाचल ग्रामीण बैंक	5007168528	10.9.15	5000000	91 दिन 6.75%	5084144
3	हिमाचल ग्रामीण बैंक	5007168458	10.9.15	5000000	91 दिन 6.75%	5084144

6 अनुदान:-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अनुदानों की प्राप्ति व व्यय का विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ग" पर दिया गया है। अंकेक्षण में जाँच पर निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई:-

(क) ₹232.01 लाख अनुदानों की अनुपयुक्त राशि:-

अनुदानों की विवरणी के अवलोकन में पाया गया है कि अंकेक्षण अवधि से पहले प्राप्त अनुदानों से ₹22099586 वर्ष 2014-15 में प्राप्त अनुदानों से ₹शून्य व वर्ष 2015-16 में प्राप्त अनुदानों से ₹1101500 कुल ₹23201086 का या तो पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है या बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया। इन राशियों का व्यय निर्धारित विकास कार्यों पर किया जाना अपेक्षित था परन्तु विवरणों से स्पष्ट है कि अधिकांश अनुदानों की शेष बची राशियाँ न तो सरकार को वापिस की गई थी और न ही इनका उपयोग उन उद्देश्य हेतु किया गया जिन उद्देश्यों के लिए इन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। अतः अनुपयुक्त अनुदान राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उसी उद्देश्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जाए जिस प्रयोजन हेतु इन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

7 गृहकर की बकाया ₹30.39 लाख वसूली हेतु लम्बित:-

नगर परिषद के अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/16 के उपलब्ध विवरणानुसार माह 3/16 तक गृहकर की बकाया ₹3039495 की वसूली की जानी अपेक्षित थी। इस राशि का विवरण परिशिष्ट "घ" में दिया गया है। गृहकर की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। बकाया राशि की वसूली हेतु परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। नियमित वसूली न होने के कारण परिषद की वित्तीय स्थिति तथा विकासात्मक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः नगर

पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 के अन्तर्गत इस सन्दर्भ में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

8 दुकानों के किराये की बकाया ₹23.00 लाख की वसूली न करना:—

नगर परिषद द्वारा विभिन्न दुकानदारों से परिशिष्ट "ड" में दर्शाये गये विवरणानुसार दिनांक 31.3.16 को दुकानों के किराया ₹2299947 की वसूली करनी शेष थी। अतः इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि इस राशि को वसूल करने हेतु नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 89 (1) में विर्दिष्ट नियमों के अन्तर्गत विशेष कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि परिषद की वित्तीय स्थिति व विकासात्मक कार्य को बढ़ावा दिया जा सके।

9 मोबाईल टावर कम्पनियों से टावर शुल्क की ₹1.97 लाख की वसूली न करना:—

प्रधान सचिव (टी एंड सी0पी0) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या टी0सी0पी0 एफ (10)—6/2005 दिनांक 1.9.2006 द्वारा मोबाईल कम्यूनीकेशन टावरों को परिषद क्षेत्र में स्थापित करने हेतु बनाई गई निति में विनिर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अन्तर्गत सम्बन्धित नगर पालिका क्षेत्र में मोबाईल टावरों को स्थापित करने की स्वीकृति परिषद से लेने के उपरान्त स्थापना शुल्क ₹10000/— तथा एक वर्ष उपरान्त ₹5000/— रिनीयूल फीस वार्षिक देय होंगे। परिषद द्वारा प्रस्तुत अभिलेख व विवरणी परिशिष्ट "च" के अनुसार दिनांक 31.3.16 को ₹196750 टावर शुल्क की वसूली हेतु शेष थे। अतः इस राशि की अतिशीघ्र वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

10 महिला छात्रावास बूथ इत्यादि का किराया ₹24.13 लाख वसूली हेतु शेष:—

कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई निम्न सूचना अनुसार ₹2413376 महिला छात्रावास बूथ का किराया, बायोमैडिकल बेस्ट के रूप में दिनांक 31.3.2016 को वसूली हेतु शेष थी। वसूली योग्य राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:—

1	महिला छात्रावास	₹24300	परिशिष्ट "छ i"
2	बूथ का किराया	₹1085245	परिशिष्ट "छ ii"
3	बायो मैडिकल बेस्ट	₹141031	परिशिष्ट "छ iii"
4	जिला चुनाव कार्यालय से किराया	₹1162800	परिशिष्ट "छ iv"
	कुल	₹2413376	

नगर परिषद की आय के अपने स्रोत पहले ही बहुत सीमित है तथा जो भी आय के स्रोत हैं उनकी वसूली भी सही ढंग से नहीं की जा रही है जोकि चिन्ताजनक है परिणामस्वरूप नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बकाया राशि की वसूली शीघ्र करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए इसके अतिरिक्त महिला छात्रावास से तीन कमरे नवचेतना एसोसिएशन के पास कई वर्षों से व आधा छात्रावास सामाजिक कल्याण विभाग के पास गत कई वर्षों से है लेकिन इन संस्थाओं/विभागों से कोई किराये की मांग नहीं की गई। इन संस्थाओं/विभागों से किराये की माँग/वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

11 दिनांक 31.3.2016 को अग्रिम ₹38.92 लाख समायोजन हेतु शेष:—

नगर परिषद कुल्लू द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु कर्मचारियों को अग्रिम राशियां प्रदान की गई थी जिस का ब्यौरा परिशिष्ट "ज" में दिया गया है। जिनमें से ₹3891900/— का समायोजन दिनांक 31.3.2016 तक नहीं करवाया गया था। अतः उक्त असमायोजित अग्रिम ₹3891900/— का समायोजन शीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 सोलिड बेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का सदुपयोग न करने बारे:—

(क) वर्ष 2002 में सोलिड बेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ₹167.25 लाख की लागत में पूर्ण किया गया था तथा इस प्रोजेक्ट द्वारा कूड़ा कचरे से 8 टन प्रतिदिन खाद तैयार कर विक्रय की जानी थी। अंकेक्षण को उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार खाद का उत्पादन नाममात्र का रह गया है और खाद तैयार करने हेतु ठेके पर ठेकेदार द्वारा तैनात श्रमिकों की अंकेक्षण अवधि में परिषद द्वारा वृद्धि की गई। वर्ष 1.1.15 से खाद उत्पादन व विक्रय का विवरण परिशिष्ट "झ-1" निम्न प्रकार से है। यह प्रकरण परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

अवधि	प्रारम्भिक शेष	खाद उत्पादन	अवधि में बेची गई खाद	खाद बिक्री से प्राप्त आय	शेष खाद मात्रा
1.1.15 से 31.12.15	240 Kg	7550 Kg	5080 Kg	18120	2710 Kg
1.1.16 से 30.7.16	2710 Kg	3360 Kg	2930Kg	10415	3140 Kg

(ख) कूड़ा संयन्त्र खाद तैयार करने कूड़े की छांट/छटाई हेतु अवधि 10.9.13 से 30.9.14 तक की अवधि में ठेके में श्रमिकों की संख्या 30 श्रमिक ₹166000 प्रतिमाह पर तैनात किये गये थे। जबकि अवधि 1.10.14 से 31.8.16 तक की अवधि में 30 श्रमिक ₹196000 प्रतिमाह पर तैनात किये गये जबकि खाद उत्पादन में अत्याधिक कमी आई है।

अतः यह प्रकरण निदेशक, शहरी विकास शिमला के ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि परिषद के अपव्यय पर रोक लगाई जा सके व अधिक खाद उत्पादन कर विक्रय कर आय में वृद्धि कर सके ताकि परिषद के विकास कार्य प्रभावित न हो।

13 कुल्लू दशहरा मेले समिति से ₹297.84 लाख प्राप्त न करना:—

दशहरा उत्सव का आयोजन नगर परिषद व उपायुक्त कुल्लू द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के निर्णय व पालना में मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश संख्या LCD-E(1)-2/2002 पार्ट-1 दिनांक 7.4.05 के अन्तर्गत दशहरा समिति द्वारा नगर परिषद को कुल प्राप्ति का 37% शेयर (भाग) प्रतिवर्ष दिया जाना अपेक्षित था। नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक ₹29784327 दशहरा समिति द्वारा (परिशिष्ट "अ" अनुसार) परिषद को प्रदान ही नहीं की गई थी। अतः सरकार द्वारा पारित आदेशों की पालना में दशहरा समिति से कुल बकाया राशि अतिशीघ्र प्राप्त की जाए ताकि परिषद के विकास कार्य प्रभावित न हो।

व्यय:—

14 (क) निश्चित चिकित्सा भत्ता (Fixed medical allowance) बिना विकल्प दिये व बिना आदेश के ₹0.57 लाख का भुगतान बारे:—

अंकेक्षण में जाँच के दौरान यह पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को बिना उनके विकल्प दिये व कार्यालय आदेश दिये दिनांक 1.6.2013 से फिक्स चिकित्सा भत्ता (Fixed Medical Allowance) दिया जा रहा है जबकि सरकार द्वारा दिनांक 10.9.2012 के अनुसार विकल्प लिखकर 3 माह अर्थात् 10.12.2012 तक देना था। उसके बाद विभाग द्वारा उनको फिक्स चिकित्सा भत्ता देने के कार्यालय आदेश जारी करना अपेक्षित थे। परन्तु निम्नलिखित कर्मचारियों ने न तो कोई विकल्प समय पर दिये गये। न ही इस सन्दर्भ में कोई कार्यालय आदेश जारी किये गये थे। इस तरह से मास 6/13 से 9/16 तक ₹56800 का भुगतान फिक्स चिकित्सा भत्ता (Fixed medical allowance) के रूप में किया गया था। इसकी

वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा फिक्स चिकित्सा भत्ता बन्द किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम व पदनाम	अवधि	माह	दर प्रतिमाह	कुल भुगतान
1	श्रीमती शैलजा W.W.H.A.	1.6.13 से 31.8.14	15	250x15	3750
		1.9.14 से 30.9.16	25	350x25	8750
	बकाया राशि वाउचर 59/6/15	1.4.13 से 31.8.14	17	100x17	1700
				कुल	14200
2	श्री मोहर सिंह बेलदार	1.6.13 से 31.8.14	15	250x15	3750
		1.9.14 से 30.9.16	25	350x25	8750
	बकाया राशि वाउचर 59/6/15	1.4.13 से 31.8.14	17	100x17	1700
				कुल	14200
3	श्री पपू उर्फ नन्दलाल बेलदार	1.6.13 से 31.8.14	15	250x15	3750
		1.9.14 से 30.9.16	25	350x25	8750
	बकाया राशि वाउचर 59/6/15	1.4.13 से 31.8.14	17	100x17	1700
				कुल	14200
4	श्रीमती ज्ञान देई बेलदार	1.6.13 से 31.8.14	15	250x15	3750
		1.9.14 से 30.9.16	25	350x25	8750
	बकाया राशि वाउचर 59/6/15	1.4.13 से 31.8.14	17	100x17	1700
				कुल	14200
Gross Total (1+2+3+4)					₹56800

(ख) वाउचर संख्या 4 मास 10/14 वेतन बिल माह 9/14 देय की जाँच के दौरान यह पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता (HRA) के अधिक भुगतान किये गये थे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	अवधि	दिया गया	अंकेक्षण अनुसार देय	अधिक भुगतान
1	श्री परसराम बेलदार	4/14 से 3/15	500	400	100X7=700
2	श्रीमती बिमला देवी W/O ओम सिंह	9/14 से 11/14	500	400	100X3=300
				योग	₹1000

इनकी वसूली निम्न प्रकार से की गई है

- 1 G-8 36/90 दिनांक 31.12.16 ₹700 जमा श्री परस राम
- 2 G-8 35/90 दिनांक 31.12.16 ₹300 जमा श्रीमति बिमला देवी

अतः कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से आग्रह किया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त प्रकार की चूक न करने हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को सतर्क रहने के आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

(ग) वाउचर संख्या 35 मास 10/14 की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बकाया राशि 72% से 80% दिनांक 1.1.13 से 31.7.2013 तक की जाँच में गणना गलत करके अधिक राशि के भुगतान किए गए थे।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम पदनाम	अवधि	भुगतान राशि	अंकेक्षण अनुसार देय राशि	अधिक भुगतान राशि
1	श्री राज बहादुर माली	1.1.13 से 31.7.13	7284	6810	₹474
2	श्री नारायण ठाकुर (C.O.)	1.1.13 से 31.7.13	9037	8778	₹259
योग					₹733

इनकी वसूली निम्न प्रकार से कर ली गई है

- 1 श्री रण बहादुर माली G-8 32/90 दिनांक 29.12.16 ₹474 जमा
- 2 श्री नारायण ठाकुर (C.O.) G-8 31/90 दिनांक 27.12.16 ₹259 जमा

अतः कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से आग्रह किया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त प्रकार की चूक न करने हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को सतर्क रहने के आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

(घ) वाउचर संख्या 47 दिनांक 21.10.14 ₹63500/-

दशहरे के लिए ढालपुर मैदान को ठीक करने के लिए जे०सी०बी० लगाने हेतु ₹800 प्रति घन्टे की दर से आशान पुष्प अखाड़ा बाजार कुल्लू को भुगतान किया गया। बिल संख्या 204 दिनांक 15.11.2013 जे०सी०बी० में दिनांक 3.10.13 को (11-10) एक घन्टे की गणना गलत करके अधिक राशि का भुगतान किया गया था जबकि अंकेक्षण अनुसार सही गणना ₹62700 ही बनता है। अतः अब अधिक भुगतान ₹63500-62700=₹800 की वसूली उक्त फर्म

से जी-8 34/90 दिनांक 31.12.2016 द्वारा कर ली गई। अतः कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से आग्रह किया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त प्रकार की चूक न करने हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को सतर्क रहने के आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

(ड) वाउचर संख्या 54 दिनांक 21.10.14 ₹72774

उपरोक्त राशि का भुगतान मै0 सूद एण्ड कम्पनी अखाड़ा बाजार कुल्लू को उनके दिनांक 2.9.14 से 15.10.14 तक के डीजल के बिलों का भुगतान किया गया था। अंकेक्षण में जाँच के दौरान पाया गया कि बिल नं0 1371 जो 50 लीटर डीजल ₹59 प्रति लीटर की गणना गलत करके ₹3540 आंका गया था जिसकी सही गणना ₹2950 ही बनती थी। अंकेक्षण अनुसार सम्पूर्ण बिल का योग ₹72184 ही बनता था। अतः अब अधिक भुगतान ₹72774-72184=₹590 की वसूली मै0 सूद एण्ड कम्पनी से करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

(च) वाउचर संख्या 62 दिनांक 25.10.14 ₹15798

उपरोक्त ₹15798 श्री राम चन्द पैन्शनर को उनकी बकाया पैन्शन दिनांक 1.1.2006 से 30.9.2009 का भुगतान किया गया था। जाँच के दौरान अंकेक्षण में पाया गया कि इसका भुगतान ₹15798 किया गया था जोकि गलत गणना योग करके किया गया जबकि अंकेक्षण अनुसार इसका योग गणना ₹15414 ही बनता है। अतः अब अधिक भुगतान (₹15798-15414)=₹384 की वसूली श्री रामचन्द सेवानिवृत्त कर्मचारी से करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

आयः—

- 15 (क)** अंकेक्षण में जाँच के दौरान निम्नलिखित तहबाजारी शुल्क के योग में गलत गणना करके कम राशि जमा की गई है।

क्रमांक	दिनांक	तहबाजारी/टिकट	अंकेक्षण अनुसार शुल्क	जमा किया	कम जमा
1	17.11.15	50/117/125	₹4705	₹4605	₹100
2	20.11.15	66-139/126	₹5048	₹4848	₹200
				कुल	₹300

नगर परिषद द्वारा जी-8 35/39 दिनांक 7.11.2016 द्वारा ₹300 को परिषद निधि में जमा कर दिया गया।

अतः कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से आग्रह किया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त प्रकार की चूक न करने हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को सतर्क रहने के आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

(ख) अंकेक्षण में जाँच के दौरान घर घर कूड़ा एकत्र करने की शुल्क रसीद बुकों में निम्नलिखित में गलत योग करके कम राशि जमा करवाई गई।

क्रमांक	दिनांक	रसीद संख्या	अंकेक्षण अनुसार योग	जमा राशि	कम जमा
1	11.1.15	7151-7200	4050	3850	₹200
2	24.1.15	8133-8159	5300	5200	₹100
3	12.1.15	6737-6750	1300	0	₹1300
				कुल योग	₹1600

उपरोक्त राशि क्र०सं० 1 व 2 ₹300 G-8 30/90 दिनांक 27.12.16 द्वारा तथा क्र०सं० 3 ₹1300 G-8 29/90 दिनांक 27.12.16 द्वारा परिषद निधि में जमा कर दी गई। अतः कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से आग्रह किया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त प्रकार की चूक न करने हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को सतर्क रहने के आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

16 गृहकर का निर्धारण 2014-15 की गृहकर निर्धारण सुनवाई बारे:-

अंकेक्षण को उपलब्ध सूचना परिशिष्ट "ट" के अनुसार 50% गृहकर सुनवाई निर्धारण न होने के कारण गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर में वर्ष 2014-15 व 2015-16 में मांग दर्ज नहीं किए थे जबकि वर्तमान में निर्धारित गृहकर की राशि को मांग व वसूली रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित था। वर्ष 2014-15 व 2015-16 के निर्धारित गृहकर की माँग दर्ज न होने के कारण कुल वसूली हेतु देय राशि की गणना सम्भव नहीं हो सकी। अतः 2014-15 व 2015-16 की गृहकर की निर्धारित प्रत्येक घर की राशि की गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर में दर्ज करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

17 लघु आपत्ति विवरणी:— लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही कर दिया गया।

18 (क) सूचना का उपलब्ध न करवाया जाना:— निम्नलिखित सूचना नगर परिषद कुल्लू द्वारा करवाई गई (1) Financial Position of own sources (2) Liability (दायित्व) of M.C. Kullu on 31.3.2016 अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई।

(ख) निष्कर्ष:— गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों के समायोजन हेतु ठोस कदम उठाये जाने एवं सुदृढ़ लेखांकन प्रणाली हेतु लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

(सतपाल सिंह)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या: V (13)/फिन (एल0ए0) खण्ड-2-3313-3314 दिनांक, 14.06.2017 शिमला-171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0, शिमला-171002 को पैरा संख्या 1 (ii) वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- पंजीकृत 2 सचिव, नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

हस्ता/—

(सतपाल सिंह)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

0177-2620881

परिशिष्ट I-क

पैरा संख्या 1 (iii) में सन्दर्भित

नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों अवधि 1/1953 से
31.3.2014 के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/53 से 3/56

1	पैरा-4	अनिर्णीत
---	--------	----------

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/56 से 3/57

1	पैरा-10 (क)	अनिर्णीत
---	-------------	----------

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/58 से 3/59

1	पैरा-8 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा-8 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा-8 (4)	अनिर्णीत
4	पैरा-8 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा-9	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/59 से 3/60

1	पैरा-5	अनिर्णीत
---	--------	----------

(ङ) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा (हि0प्र0) की निरीक्षण रिपोर्ट संख्या (5) (100) 3634 दिनांक
14.11.1961

1	पैरा-1 (1) (4)	अनिर्णीत
---	----------------	----------

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/60 से 3/61

1	पैरा-13 (2) (4)	अनिर्णीत
2	पैरा-16 (3)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/61 से 3/62

1	पैरा-5	अनिर्णीत
2	पैरा-11 (3)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/62 से 3/64

1	पैरा-5 (1) (2)	अनिर्णीत
2	पैरा-8 (2) (3)	अनिर्णीत
3	पैरा-10 (1, 2, 3, 8)	अनिर्णीत
4	पैरा-10	अनिर्णीत
5	पैरा-14	अनिर्णीत
6	पैरा-16 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा-17 (2)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/64 से 3/66

1	पैरा-9 (a)	अनिर्णीत
2	पैरा-11	अनिर्णीत
3	पैरा-11 (a)	अनिर्णीत
4	पैरा-11 (d)	अनिर्णीत
5	पैरा-12 (5)	अनिर्णीत
6	पैरा-13	अनिर्णीत
7	पैरा-14 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा-14 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा-17 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा-20 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा-20 (बी)	अनिर्णीत

12	पैरा-24 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा-24 (3)	अनिर्णीत
14	पैरा-24 (4)	अनिर्णीत
15	पैरा-24 (5)	अनिर्णीत
16	पैरा-24 (6)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/66 से 3/67

1	पैरा-11 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा-11 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा-11 (ई)	अनिर्णीत
4	पैरा-15 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा-16	अनिर्णीत
6	पैरा-17 (8)	अनिर्णीत
7	पैरा-17 (13)	अनिर्णीत
8	पैरा-18 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा-19 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा-20 (3)	अनिर्णीत

(ट) उप सचिव (बंजार) की 6/70 तथा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा (हि0प्र0) की दिनांक 6.7. 1973 की निरीक्षण रिपोर्ट

उक्त निरीक्षण रिपोर्ट अंकेक्षण में पुनः प्रस्तुत नहीं की गई और न ही सटिप्पण उत्तर तैयार किये गये थे जिस पर तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित की जाये।

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/67 से 3/71

1	पैरा-1	अनिर्णीत
2	पैरा-11	अनिर्णीत
3	पैरा-12	अनिर्णीत
4	पैरा-13	अनिर्णीत
5	पैरा-16 (2)	अनिर्णीत

6	पैरा-16 (3)	अनिर्णीत
7	पैरा-16 (4)	अनिर्णीत
8	पैरा-16 (5)	अनिर्णीत
9	पैरा-16 (6)	अनिर्णीत
10	पैरा-17 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा-17 (बी) (1) (2)	अनिर्णीत
12	पैरा-17 (सी)	अनिर्णीत
13	पैरा-18	अनिर्णीत
14	पैरा-19	अनिर्णीत
15	पैरा-20	अनिर्णीत
16	पैरा-21 (1)	अनिर्णीत
17	पैरा-21 (2)	अनिर्णीत
18	पैरा-21 (3)	अनिर्णीत
19	पैरा-22	अनिर्णीत
20	पैरा-23	अनिर्णीत
21	पैरा-25	अनिर्णीत
22	पैरा-26	अनिर्णीत
23	पैरा-27	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/71 से 3/74

1	पैरा-8	अनिर्णीत
2	पैरा-13	अनिर्णीत
3	पैरा-15 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा-15 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा-15 (3)	अनिर्णीत
6	पैरा-15 (5)	अनिर्णीत
7	पैरा-17 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा-17 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा-17 (सी)	अनिर्णीत

10	पैरा-17 (डी)	अनिर्णीत
11	पैरा-17 (ई)	अनिर्णीत
12	पैरा-17 (एफ)	अनिर्णीत
13	पैरा-17 (जी)	अनिर्णीत
14	पैरा-17 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा-17 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा-20	अनिर्णीत
17	पैरा-20 (3)	अनिर्णीत
18	पैरा-24 (2)	अनिर्णीत
19	पैरा-24 (6)	अनिर्णीत
20	पैरा-24 (7)	अनिर्णीत
21	पैरा-24 (8)	अनिर्णीत
22	पैरा-25	अनिर्णीत

(ढ) 1 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/74 से 3/76

2 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/78

3 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/78 से 3/80

उक्त अंकेक्षण अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदनों को इस बार भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उन पर कोई अपेक्षित कार्यवाही की गई थी।

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/82

1	पैरा-7 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा-9 (21)	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/83

1	पैरा-3 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा-4	अनिर्णीत
3	पैरा-5	अनिर्णीत
4	पैरा-6	अनिर्णीत
5	पैरा-7	अनिर्णीत

6	પૈરા-8	અનિર્ણીત
7	પૈરા-9	અનિર્ણીત
8	પૈરા-10	અનિર્ણીત
9	પૈરા-11	અનિર્ણીત
10	પૈરા-12	અનિર્ણીત
11	પૈરા-13	અનિર્ણીત
12	પૈરા-14 (1)	અનિર્ણીત
13	પૈરા-14 (2)	અનિર્ણીત
14	પૈરા-14 (3)	અનિર્ણીત
15	પૈરા-14 (4)	અનિર્ણીત
16	પૈરા-14 (6)	અનિર્ણીત
17	પૈરા-14 (7)	અનિર્ણીત
18	પૈરા-14 (ઁ)	અનિર્ણીત
19	પૈરા-14 (બી)	અનિર્ણીત
20	પૈરા-14 (8) (બી)	અનિર્ણીત
21	પૈરા-14 (9)	અનિર્ણીત
22	પૈરા-14 (10)	અનિર્ણીત
23	પૈરા-15	અનિર્ણીત
24	પૈરા-16	અનિર્ણીત
25	પૈરા-17	અનિર્ણીત
26	પૈરા-18	અનિર્ણીત
27	પૈરા-19 (ઁ) (2) (3)	અનિર્ણીત
28	પૈરા-19 (બી)	અનિર્ણીત
29	પૈરા-20	અનિર્ણીત
30	પૈરા-21	અનિર્ણીત
31	પૈરા-22	અનિર્ણીત

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/84

1	पैरा-3 (ए बी)	अनिर्णीत
2	पैरा-4	अनिर्णीत
3	पैरा-5 (ए)	अनिर्णीत
4	पैरा-5 (सी)	अनिर्णीत
5	पैरा-5 (सी) (1, 2)	अनिर्णीत
6	पैरा-6 (2) (2)	अनिर्णीत
7	पैरा-7 (1 से 6)	अनिर्णीत
8	पैरा-9 (1, 2)	अनिर्णीत
9	पैरा-10 (1, 2)	अनिर्णीत
10	पैरा-11	अनिर्णीत
11	पैरा-12	अनिर्णीत
12	पैरा-13 (ए)	अनिर्णीत
13	पैरा-13 (बी) (1 2)	अनिर्णीत
14	पैरा-14 (ए)	अनिर्णीत
15	पैरा-15 (ए से एफ)	अनिर्णीत
16	पैरा-16 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
17	पैरा-17 (ए, बी)	अनिर्णीत
18	पैरा-18 (ए, बी)	अनिर्णीत
19	पैरा-18 (एफ)	अनिर्णीत
20	पैरा-19 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
21	पैरा-23	अनिर्णीत
22	पैरा-24 (1) (ए, बी, सी)	अनिर्णीत
23	पैरा-24 (2, 3, 4)	अनिर्णीत
24	पैरा-25 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा-25 (डी, ई)	अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 25.2.91 से 31.3.92

1	पैरा-3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा-4 (क) (5)	अनिर्णीत
3	पैरा-4 (क) (7) (8)	अनिर्णीत
4	पैरा-7 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा-8 (1) (2)	अनिर्णीत
6	पैरा-9	अनिर्णीत
7	पैरा-10	अनिर्णीत
8	पैरा-11	अनिर्णीत
9	पैरा-12 (1) (2)	अनिर्णीत
10	पैरा-13 (3)	अनिर्णीत
11	पैरा-15 (क)	अनिर्णीत
12	पैरा-15 (ख) (1, 2)	अनिर्णीत
13	पैरा-15 (ख) (6)	अनिर्णीत
14	पैरा-15 (ख) (9 से 13)	अनिर्णीत
15	पैरा-18	अनिर्णीत
16	पैरा-19	अनिर्णीत
17	पैरा-20	अनिर्णीत
18	पैरा-22 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
19	पैरा-25	अनिर्णीत
20	पैरा-27 (2, 3)	अनिर्णीत

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

1	पैरा-3	अनिर्णीत
2	पैरा-8 (ख, ग)	अनिर्णीत
3	पैरा-9	अनिर्णीत
4	पैरा-10	अनिर्णीत
5	पैरा-11	अनिर्णीत

6	पैरा-12 (1, 2)	अनिर्णीत
7	पैरा-13 (1, 2)	अनिर्णीत
8	पैरा-14	अनिर्णीत
9	पैरा-15 (1, 3)	अनिर्णीत
10	पैरा-16 (क)	अनिर्णीत
11	पैरा-16 (ख) (3, 5, 7)	अनिर्णीत
12	पैरा-16 (ख) 11	अनिर्णीत
13	पैरा-17 (1 से 4)	अनिर्णीत
14	पैरा-18	अनिर्णीत
15	पैरा-19 (क, ख)	अनिर्णीत
16	पैरा-21	अनिर्णीत
17	पैरा-23 (1 3)	अनिर्णीत
18	पैरा-24 (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत

(न) निरीक्षण प्रतिवेदन संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि लेखा (हि0प्र0)

1	पैरा-1	अनिर्णीत
2	पैरा-3	अनिर्णीत
3	पैरा-4	अनिर्णीत
4	पैरा-5	अनिर्णीत
5	पैरा-9	अनिर्णीत

(प) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94

1	पैरा-3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा-8 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा-8 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा-8 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा-9	अनिर्णीत
6	पैरा-10	अनिर्णीत
7	पैरा-11	अनिर्णीत

8	पैरा-12	अनिर्णीत
9	पैरा-13	अनिर्णीत
10	पैरा-14	अनिर्णीत
11	पैरा-15 (ख)	अनिर्णीत
12	पैरा-16 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा-16 (ख) (1, 2, 3, 4, 6)	अनिर्णीत
14	पैरा-17 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
15	पैरा-18	अनिर्णीत
16	पैरा-19	अनिर्णीत
17	पैरा-20	अनिर्णीत
18	पैरा-21 (2)	अनिर्णीत
19	पैरा-23 (2)	अनिर्णीत
20	पैरा-24 (1, 2)	अनिर्णीत
21	पैरा-25 (2, 3)	अनिर्णीत

(फ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/98

1	पैरा-3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा-7 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा-7 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा-7 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा-7 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा-8	अनिर्णीत
7	पैरा-9	अनिर्णीत
8	पैरा-10 (2)	अनिर्णीत
9	पैरा-11	अनिर्णीत
10	पैरा-12 (1)	अनिर्णीत
11	पैरा-12 (2)	अनिर्णीत
12	पैरा-13	अनिर्णीत
13	पैरा-14 (1)	अनिर्णीत

14	પૈરા—14 (2)	અનિર્ણીત
15	પૈરા—14 (3)	અનિર્ણીત
16	પૈરા—14 (5)	અનિર્ણીત
17	પૈરા—14 (6)	અનિર્ણીત
18	પૈરા—14 (7)	અનિર્ણીત
19	પૈરા—14 (8)	અનિર્ણીત
20	પૈરા—14 (9)	અનિર્ણીત
21	પૈરા—14 (10)	અનિર્ણીત
22	પૈરા—14 (11)	અનિર્ણીત
23	પૈરા—14 (12)	અનિર્ણીત
24	પૈરા—14 (13)	અનિર્ણીત
25	પૈરા—14 (14)	અનિર્ણીત
26	પૈરા—14 (15)	અનિર્ણીત
27	પૈરા—14 (16)	અનિર્ણીત
28	પૈરા—14 (17) (1)	અનિર્ણીત
29	પૈરા—14 (17) (2)	અનિર્ણીત
30	પૈરા—14 (18)	અનિર્ણીત
31	પૈરા—14 (19) (1)	અનિર્ણીત
32	પૈરા—14 (19) (2)	અનિર્ણીત
33	પૈરા—14 (20) (1) (2)	અનિર્ણીત
34	પૈરા—14 (21)	અનિર્ણીત
35	પૈરા—14(22)	અનિર્ણીત
36	પૈરા—14 (23)	અનિર્ણીત
37	પૈરા—14 (24)	અનિર્ણીત
38	પૈરા—14 (25)	અનિર્ણીત
39	પૈરા—14 (26)	અનિર્ણીત
40	પૈરા—14 (27)	અનિર્ણીત
41	પૈરા—14 (28)	અનિર્ણીત
42	પૈરા—14 (29)	અનિર્ણીત

43	पैरा-14 (30) (1, 2)	अनिर्णीत
44	पैरा-14 (31)	अनिर्णीत
45	पैरा-14 (32)	अनिर्णीत
46	पैरा-14 (33)	अनिर्णीत
47	पैरा-14 (35)	अनिर्णीत
48	पैरा-14 (37)	अनिर्णीत
49	पैरा-14 (38)	अनिर्णीत
50	पैरा-14 (41)	अनिर्णीत
51	पैरा-16 (5)	अनिर्णीत
52	पैरा-17 (क)	अनिर्णीत
53	पैरा-17 (ख) (2)	अनिर्णीत
54	पैरा-17 (ग) (2)	अनिर्णीत
55	पैरा-17 (ग) (3)	अनिर्णीत
56	पैरा-17 (घ)	अनिर्णीत
57	पैरा-18	अनिर्णीत
58	पैरा-19 (1)	अनिर्णीत
59	पैरा-19 (2)	अनिर्णीत
60	पैरा-19 (3)	अनिर्णीत
61	पैरा-19 (4)	अनिर्णीत
62	पैरा-20 (1)	अनिर्णीत
63	पैरा-20 (2)	अनिर्णीत
64	पैरा-20 (3)	अनिर्णीत
65	पैरा-20 (4)	अनिर्णीत
66	पैरा-20 (5)	अनिर्णीत
67	पैरा-21	अनिर्णीत
68	पैरा-22 (1)	अनिर्णीत
69	पैरा-22 (2)	अनिर्णीत
70	पैरा-22 (5) (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत
71	पैरा-22 (6)	अनिर्णीत

72	पैरा-22 (7)	अनिर्णीत
73	पैरा-23	अनिर्णीत
74	पैरा-24	अनिर्णीत
75	पैरा-25	अनिर्णीत
76	पैरा-26 (1)	अनिर्णीत
77	पैरा-26 (2)	अनिर्णीत
78	पैरा-26 (3)	अनिर्णीत
79	पैरा-26 (4)	अनिर्णीत
80	पैरा-26 (5)	अनिर्णीत
81	पैरा-26 (6)	अनिर्णीत
82	पैरा-26 (7)	अनिर्णीत

(ब) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2001

1	पैरा-3 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा-5	अनिर्णीत
3	पैरा-6 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा-6 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा-6 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा-7 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा-7 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा-8 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा-8 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा-8 (ग)	अनिर्णीत
11	पैरा-9	अनिर्णीत
12	पैरा-10	अनिर्णीत
13	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत
14	पैरा-11 (ख)	अनिर्णीत
15	पैरा-12 (क)	आंशिक निर्णीत
16	पैरा-13	अनिर्णीत

17	पैरा-14 (क)	अनिर्णीत
18	पैरा-14 (ख)	अनिर्णीत
19	पैरा-14 (ग)	अनिर्णीत
20	पैरा-14 (घ) (1)	अनिर्णीत
21	पैरा-14 (घ) (2)	अनिर्णीत
22	पैरा-14 (ङ)	अनिर्णीत
23	पैरा-14 (छ) (2)	अनिर्णीत
24	पैरा-14 (झ) (1)	अनिर्णीत
25	पैरा-14 (ञ)	अनिर्णीत
26	पैरा-14 (त)	अनिर्णीत
27	पैरा-14 (थ)	अनिर्णीत
28	पैरा-14 (द)	अनिर्णीत
29	पैरा-15 (1)	अनिर्णीत
30	पैरा-15 (2) (1, 2, 3, 5, 6, 7)	आंशिक निर्णीत
31	पैरा-16 (2)	अनिर्णीत
32	पैरा-17	आंशिक निर्णीत
33	पैरा-18 (1)	अनिर्णीत
34	पैरा-18 (2)	अनिर्णीत
35	पैरा-18 (3)	अनिर्णीत
36	पैरा-19 (1)	अनिर्णीत
37	पैरा-19 (2)	अनिर्णीत
38	पैरा-20 (1)	अनिर्णीत
39	पैरा-20 (2)	अनिर्णीत

(भ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/01 से 3/2007

1	पैरा-1	अनिर्णीत
2	पैरा-2	अनिर्णीत
3	पैरा-4 (a)	अनिर्णीत
4	पैरा-4 (b)	अनिर्णीत

5	पैरा-4 (c) (i) से (iv)	अनिर्णीत
6	पैरा-4 (c) (1 ,2)	अनिर्णीत
7	पैरा-4 (d)	अनिर्णीत
8	पैरा-4 (e)	अनिर्णीत
9	पैरा-4 (f)	अनिर्णीत
10	पैरा-4 (g)	अनिर्णीत
11	पैरा-4 (h)	अनिर्णीत
12	पैरा-4 (i)	अनिर्णीत
13	पैरा-4 (j)	अनिर्णीत
14	पैरा-4 (k)	अनिर्णीत
15	पैरा-4 (l)	अनिर्णीत
16	पैरा-4 (m)	अनिर्णीत
17	पैरा-4 (n)	अनिर्णीत
18	पैरा-4 (o)	अनिर्णीत
19	पैरा-4 (p)	अनिर्णीत
20	पैरा-4 (q)	अनिर्णीत
21	पैरा-4 (r)	अनिर्णीत
22	पैरा-5 (a)	अनिर्णीत
23	पैरा-5 (b)	अनिर्णीत
24	पैरा-5 (c)	अनिर्णीत
25	पैरा-5 (d)	अनिर्णीत
26	पैरा-5 (e)(i)	अनिर्णीत
27	पैरा-5 (e)(ii)	अनिर्णीत
28	पैरा-5 (e) (iii)	अनिर्णीत
29	पैरा-5 (f)	अनिर्णीत
30	पैरा-5 (g)	अनिर्णीत
31	पैरा-5 (h)	अनिर्णीत
32	पैरा-6 (a)	अनिर्णीत
33	पैरा-6 (b)	अनिर्णीत

34	पैरा-6 (c)	अनिर्णीत
35	पैरा-6 (d)	अनिर्णीत
36	पैरा-6 (e)	अनिर्णीत
37	पैरा-6 (f)	अनिर्णीत
38	पैरा-6 (g)	अनिर्णीत
39	पैरा-6 (h)	अनिर्णीत
40	पैरा-6 (i)	अनिर्णीत
41	पैरा-6 (j)	अनिर्णीत
42	पैरा-6 (k)	अनिर्णीत
43	पैरा-6 (l)	अनिर्णीत
44	पैरा-6 (m)	अनिर्णीत
45	पैरा-6 (n)	अनिर्णीत
46	पैरा-6 (o)	अनिर्णीत
47	पैरा-6 (p)	अनिर्णीत
48	पैरा-6 (q)	अनिर्णीत
49	पैरा-6 (r)	अनिर्णीत
50	पैरा-6 (s)	अनिर्णीत
51	पैरा-6 (t)	अनिर्णीत
52	पैरा-6 (u)	अनिर्णीत
53	पैरा-6 (v)	अनिर्णीत
54	पैरा-6 (w)	अनिर्णीत
55	पैरा-6 (x)	अनिर्णीत
56	पैरा-6 (y)	अनिर्णीत
57	पैरा-6 (z)	अनिर्णीत
58	पैरा-6 (A)	अनिर्णीत
59	पैरा-6 (B)	अनिर्णीत
60	पैरा-6 (C) (क ख ग)	अनिर्णीत
61	पैरा-6 (D)	अनिर्णीत
62	पैरा-6 (E)	अनिर्णीत

63	पैरा-6 (F)	अनिर्णीत
64	पैरा-6 (G)	अनिर्णीत
65	पैरा-6 (H)	अनिर्णीत
66	पैरा-6 (I)	अनिर्णीत
67	पैरा-6 (J)	अनिर्णीत
68	पैरा-6 (K)	अनिर्णीत
69	पैरा-6 (L)	अनिर्णीत
70	पैरा-6 (M)	अनिर्णीत
71	पैरा-6 (N)	अनिर्णीत
72	पैरा-6 (O)	अनिर्णीत
73	पैरा-6 (P)	अनिर्णीत
74	पैरा-6 (Q)	अनिर्णीत
75	पैरा-6 (R)	अनिर्णीत
76	पैरा-6 (S)	अनिर्णीत
77	पैरा-6 (T)	अनिर्णीत
78	पैरा-6 (U)	अनिर्णीत
79	पैरा-6 (V)	अनिर्णीत
80	पैरा-6 (V) (क ख ग घ)	अनिर्णीत
81	पैरा-6 (X)	अनिर्णीत
82	पैरा-6 (Y)	अनिर्णीत
83	पैरा-6 (Z)	अनिर्णीत
84	पैरा-6 (a-1)	अनिर्णीत
85	पैरा-6 (a-2)	अनिर्णीत
86	पैरा-6 (b-1)	अनिर्णीत
87	पैरा-6 (c-1)	अनिर्णीत
88	पैरा-6 (d-1)	अनिर्णीत
89	पैरा-6 (e-1) (क से छ)	अनिर्णीत
90	पैरा-6 (f-1)	अनिर्णीत
91	पैरा-6 (g-1)	अनिर्णीत

92	પૈરા-6 (h-1)	અનિર્ણીત
93	પૈરા-6 (i-1)	અનિર્ણીત
94	પૈરા-6 (j-1)	અનિર્ણીત
95	પૈરા-6 (k-1)	અનિર્ણીત
96	પૈરા-6 (l-1)	અનિર્ણીત
97	પૈરા-6 (m-1)	અનિર્ણીત
98	પૈરા-6 (n-1)	અનિર્ણીત
99	પૈરા-6 (O-1)	અનિર્ણીત
100	પૈરા-6 (P-1)	અનિર્ણીત
101	પૈરા-6 (Q-1)	અનિર્ણીત
102	પૈરા-6 (R-1)	અનિર્ણીત
103	પૈરા-6 (S-1)	અનિર્ણીત
104	પૈરા-6 (T-1)	અનિર્ણીત
105	પૈરા-6 (U-1)	અનિર્ણીત
106	પૈરા-6 (V-1)	અનિર્ણીત
107	પૈરા-6 (W-1)	અનિર્ણીત
108	પૈરા-6 (X-1)	અનિર્ણીત
109	પૈરા-6 (Y-1)	અનિર્ણીત
110	પૈરા-6 (Z-1)	અનિર્ણીત
111	પૈરા-6 (i)	અનિર્ણીત
112	પૈરા-6 (ii)	અનિર્ણીત
113	પૈરા-6 (iii)	અનિર્ણીત
114	પૈરા-7 (a)	અનિર્ણીત
115	પૈરા-7 (b)	અનિર્ણીત
116	પૈરા-7 (c)	અનિર્ણીત
117	પૈરા-7 (d)	અનિર્ણીત
118	પૈરા-7 (e)	અનિર્ણીત
119	પૈરા-7 (f)	અનિર્ણીત
120	પૈરા-7 (g)	અનિર્ણીત

121	पैरा-7 (h)	अनिर्णीत
122	पैरा-7 (i)	अनिर्णीत
123	पैरा-7 (j)	अनिर्णीत
124	पैरा-7 (k)	अनिर्णीत
125	पैरा-7 (l)	अनिर्णीत
126	पैरा-7 (m)	अनिर्णीत
127	पैरा-7 (n) (a, b)	अनिर्णीत
128	पैरा-7 (o)	अनिर्णीत
129	पैरा-7 (p)	अनिर्णीत
130	पैरा-7 (q)	अनिर्णीत
131	पैरा-8 (a)	अनिर्णीत
132	पैरा-8 (b)	अनिर्णीत
133	पैरा-8 (c)	अनिर्णीत
134	पैरा-8 (d)	अनिर्णीत
135	पैरा-8 (d) (1, 2, 3, 4, 5)	अनिर्णीत
136	पैरा-8 (d) (6) (1, 2, 3)	अनिर्णीत
137	पैरा-8 (e) (1, 2)	अनिर्णीत
138	पैरा-9 (a)	अनिर्णीत
139	पैरा-9 (b)	अनिर्णीत
140	पैरा-9 (c)	अनिर्णीत
141	पैरा-9 (d)	अनिर्णीत
142	पैरा-9 (e)	अनिर्णीत
143	पैरा-9 (f)	अनिर्णीत
144	पैरा-9 (g)	अनिर्णीत
145	पैरा-9 (h) (i) से (iv)	अनिर्णीत

(म) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1	पैरा-4	अनिर्णीत
2	पैरा-4 (क)	अनिर्णीत

3	पैरा-4 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा-4 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा-4 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा-4 (ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा-4 (च)	अनिर्णीत
8	पैरा-4 (छ)	अनिर्णीत
9	पैरा-5	अनिर्णीत
10	पैरा-5 (क)	अनिर्णीत
11	पैरा-5 (ख)	अनिर्णीत
12	पैरा-5 (ग)	अनिर्णीत
13	पैरा-6 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा-6 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा-6 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा-6 (4)	अनिर्णीत
17	पैरा-6 (5)	अनिर्णीत
18	पैरा-6 (6)	अनिर्णीत
19	पैरा-6 (8)	अनिर्णीत
20	पैरा-6 (9)	अनिर्णीत
21	पैरा-6 (10)	अनिर्णीत
22	पैरा-6 (11)	अनिर्णीत
23	पैरा-6 (12)	अनिर्णीत
24	पैरा-7	अनिर्णीत
25	पैरा-7 (i)	अनिर्णीत
26	पैरा-7 (ii)	अनिर्णीत
27	पैरा-7 (2)	अनिर्णीत
28	पैरा-7 (3)	अनिर्णीत
29	पैरा-7 (4)	अनिर्णीत
30	पैरा-7 (5)	अनिर्णीत
31	पैरा-8 (1)	अनिर्णीत

32	पैरा-8 (2)	अनिर्णीत
33	पैरा-8 (3)	अनिर्णीत
34	पैरा-8 (4)	अनिर्णीत
35	पैरा-8 (5)	अनिर्णीत
36	पैरा-8 (6)	अनिर्णीत
37	पैरा-8 (6) (क)	अनिर्णीत
38	पैरा-8 (6) (ख)	अनिर्णीत
39	पैरा-8 (6) (ग)	अनिर्णीत
40	पैरा-8 (7)	अनिर्णीत
41	पैरा-8 (7) (क)	अनिर्णीत
42	पैरा-8 (7) (ख)	अनिर्णीत
43	पैरा-8 (7) (ग)	अनिर्णीत
44	पैरा-8 (7) (घ)	अनिर्णीत
45	पैरा-8 (7) (ङ)	अनिर्णीत
46	पैरा-8 (8)	अनिर्णीत
47	पैरा-8 (8) (क)	अनिर्णीत
48	पैरा-8 (8) (ख)	अनिर्णीत
49	पैरा-8 (8) (ग)	अनिर्णीत
50	पैरा-8 (8) (घ)	अनिर्णीत
51	पैरा-8 (9)	अनिर्णीत
52	पैरा-8 (10)	अनिर्णीत
53	पैरा-8 (11)	अनिर्णीत
54	पैरा-8 (12)	अनिर्णीत
55	पैरा-8 (13)	अनिर्णीत
56	पैरा-8 (13) (क)	अनिर्णीत
57	पैरा-8 (13) (ख)	अनिर्णीत
58	पैरा-8 (13) (ग)	अनिर्णीत
59	पैरा-8 (13) (घ)	अनिर्णीत
60	पैरा-8 (13) (ङ)	अनिर्णीत

61	पैरा-8 (14)	अनिर्णीत
62	पैरा-8 (15)	अनिर्णीत
63	पैरा-8 (15) (क)	अनिर्णीत
64	पैरा-8 (15) (ख)	अनिर्णीत
65	पैरा-8 (15) (ग)	अनिर्णीत
66	पैरा-8 (16)	अनिर्णीत
67	पैरा-8 (16) (क)	अनिर्णीत
68	पैरा-8 (16) (ख)	अनिर्णीत
69	पैरा-8 (17)	अनिर्णीत
70	पैरा-8 (18)	अनिर्णीत
71	पैरा-8 (19)	अनिर्णीत
72	पैरा-8 (20)	अनिर्णीत
73	पैरा-8 (21)	अनिर्णीत
74	पैरा-8 (22)	अनिर्णीत
75	पैरा-8 (23)	अनिर्णीत
76	पैरा-8 (23) (क)	अनिर्णीत
77	पैरा-8 (23) (ख)	अनिर्णीत
78	पैरा-8 (23) (ग)	अनिर्णीत
79	पैरा-8 (24)	अनिर्णीत
80	पैरा-8 (25)	अनिर्णीत
81	पैरा-9 (1)	अनिर्णीत
82	पैरा-9 (2)	अनिर्णीत
83	पैरा-9 (2) (क)	अनिर्णीत
84	पैरा-9 (2) (ख)	अनिर्णीत
85	पैरा-9 (3)	अनिर्णीत
86	पैरा-9 (4)	अनिर्णीत
87	पैरा-9 (5)	अनिर्णीत
88	पैरा-9 (6)	अनिर्णीत
89	पैरा-9 (7)	अनिर्णीत

90	पैरा-9 (8)	अनिर्णीत
91	पैरा-9 (क)	अनिर्णीत
92	पैरा-9 (ख)	अनिर्णीत
93	पैरा-10 (1)	अनिर्णीत
94	पैरा-10 (2)	अनिर्णीत
95	पैरा-10 (3)	अनिर्णीत
96	पैरा-10 (4)	अनिर्णीत
97	पैरा-10 (5)	अनिर्णीत
98	पैरा-11 (2) (क)	अनिर्णीत
99	पैरा-11 (2) (ख)	अनिर्णीत
100	पैरा-11 (3)	अनिर्णीत
101	पैरा-11 (4) (क)	अनिर्णीत
102	पैरा-11 (4) (ख)	अनिर्णीत
103	पैरा-12	अनिर्णीत
104	पैरा-13	अनिर्णीत

(य) अंकक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12

1	पैरा-6	अनिर्णीत
2	पैरा-7	अनिर्णीत
3	पैरा-8	अनिर्णीत
4	पैरा-9	अनिर्णीत
5	पैरा-10	अनिर्णीत
6	पैरा-11	अनिर्णीत
7	पैरा-12	अनिर्णीत
8	पैरा-13	अनिर्णीत
9	पैरा-14	अनिर्णीत
10	पैरा-15	अनिर्णीत
11	पैरा-16	अनिर्णीत
12	पैरा-17	अनिर्णीत
13	पैरा-18	अनिर्णीत

14	पैरा-19	अनिर्णीत	
15	पैरा-20	अनिर्णीत	
16	पैरा-22	अनिर्णीत	
17	पैरा-23	अनिर्णीत	
18	पैरा-24	अनिर्णीत	
19	पैरा-25	अनिर्णीत	
20	पैरा-26	अनिर्णीत	
21	पैरा-27	आंशिक निर्णीत	(केवल श्री यशपाल चपड़ासी से ₹2318 व श्री प्रकाश टोलू गार्ड से ₹2318 की वसूली की गई)
22	पैरा-28	अनिर्णीत	
23	पैरा-29	अनिर्णीत	
24	पैरा-30	अनिर्णीत	
25	पैरा-31	अनिर्णीत	
26	पैरा-32	अनिर्णीत	
27	पैरा-33	अनिर्णीत	
28	पैरा-34	अनिर्णीत	
29	पैरा-35	अनिर्णीत	
30	पैरा-36	अनिर्णीत	
31	पैरा-37	अनिर्णीत	
32	पैरा-38	अनिर्णीत	
33	पैरा-39	अनिर्णीत	
34	पैरा-40	अनिर्णीत	
35	पैरा-41	अनिर्णीत	
36	पैरा-42	अनिर्णीत	
37	पैरा-43	अनिर्णीत	
38	पैरा-44	अनिर्णीत	

(र) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/12 से 3/14

1 पैरा-3 निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क 4/12 से 3/14
₹69000 जमा ड्राफ्ट संख्या 000447
दिनांक 30.12.2016 द्वारा प्रेषित)

2	पैरा-5	अनिर्णीत	
3	पैरा-6 (क)	अनिर्णीत	
4	पैरा-6 (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा-7	निर्णीत	(पुनः संशोधित प्रारूपित)
6	पैरा-8	निर्णीत	(पुनः संशोधित प्रारूपित)
7	पैरा-9	अनिर्णीत	
8	पैरा-10	अनिर्णीत	
9	पैरा-11	निर्णीत	(पुनः संशोधित प्रारूपित)
10	पैरा-12	अनिर्णीत	
11	पैरा-13	अनिर्णीत	
12	पैरा-14	अनिर्णीत	
13	पैरा-15	अनिर्णीत	
14	पैरा-16	निर्णीत	(पुनः संशोधित प्रारूपित)
15	पैरा-17 (क, ख, ग)	अनिर्णीत	
16	पैरा-18	अनिर्णीत	
17	पैरा-19	अनिर्णीत	
18	पैरा-20	अनिर्णीत	
19	पैरा-21	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

दिनांक 31.3.14 तक अनिर्णीत पैरों की संख्या	640
वर्तमान अंकेक्षण में लगाए गए पैरों की सं०	15
वर्तमान अंकेक्षण में निर्णीत किए गए पैरों की सं०	5
अन्तशेष	650